

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2003, शनिवार/श्रावण 5—श्रावण 11, 1925
No. 18] NEW DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2003, SATURDAY/SRAVANA 5—SRAVANA 11, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2003

आ. अ. 41.—आयोग की दिनांक 6 जून, 2003 की अधिसूचना के संदर्भ में, जिसमें वर्ष 2000 की निर्वाचन याचिका सं. 6 में मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांक 11-4-2003 का आदेश प्रकाशित हुआ था, के निर्णय के पृष्ठ 3 पर, पैरा 4 में उल्लिखित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 1. सम्पथ उदय कुमार को श्रीमती सुमति उदयकुमार पढ़ा जाए।

[सं. 82/तमिलनाडु-सी० सं०/06/2000]

आदेश से,
तपस कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th July, 2003

O.N. 41.—In reference to the Commission's Notification dated 06th June, 2003 publishing order of the High Court of Madras dated 11-04-2003 in Election Petition No. 06 of 2000, the name of the contesting candidate, i.e., 1. Sampath Udhayakumar, mentioned in para 4 of page 3 of the Judgement may be read as Smt. Sumathi Udhayakumar.

[No. 82/TN-HP/06/2000]

By Order,

TAPAS KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

आ. अ. 42.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट गोवा विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और अथवा उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	गोवा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	01—मानड्रेम	लुईस लारेंस, फर्नांडीज बंगला, पास में चर्च अरमबोल, पेरनेम, गोवा	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	02—पेरनेम	पेटकार भारत रामचंद, वेदोनगर पारकेम, पेरनेम, गोवा	-वही-
3.	-वही-	06—सियोलिम	नायक गोकुलदास सूर्या, म. नं. 694, अस्सागाओ, बाडेम, बारडेज, गोवा	-वही-
4.	-वही-	08—सालिगाओ	रोलंड ए. डी. सूजा सेकवेरा वाडो सालिगाओ, बारडेज, गोवा	-वही-
5.	-वही-	11—तालेइगोवा	फर्नांडीज लारेंस जेक शंगरीला सी-10 मिरामार पणजी, गोवा	-वही-
6.	-वही-	-वही-	विजय आनंद पालेकर, 244/ए, कारडोज वाडो, तालेइगाओ, गोवा	-वही-
7.	-वही-	12—सांताक्रुज	लौरेंको विसेंटो डोमिनगोस, 610, कुजिरा, सांताक्रुज, गोवा	-वही-
8.	-वही-	-वही-	अमोंकार पुंडालिक आत्माराम कुमभार वाडा, वादी, मेरसेस, गोवा	-वही-

[सं. 76/गोवा-वि० सं०/2002]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

O. N. 42.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Goa Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses, as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission, or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	S. No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of Contesting candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Goa Legislative Assembly, 2002	01—Mandrem	Louis Lawrence Fernandes, Bungalow, Near Church Arambol, Pernem, Goa.	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	02—Pernem	Petkar Bharat Ramchandra, Vaidongar-Parcem, Pernem Goa.	-do-
3.	-do-	06—Siolim	Naik Gokuldas Surya, H. No. 694, Assagao Badem, Bardez, Goa.	-do-
4.	-do-	08—Saligao	Roland A.D'Souza, Sequeira Vado, Saligao, Bardez, Goa.	-do-
5.	-do-	11—Taleigao	Fernandes Lawrence Jack, Shangrila, C-10, Miramar, Panaji, Goa.	-do-
6.	-do-	-do-	Vijay Anand Palekar, 244/A, Cardoz Waddo, Taleigao, Goa.	-do-
7.	-do-	12—St. Cruz	Lourenco Vicente Domingos, 610, Cujira, St. Cruz, Goa.	-do-
8.	-do-	-do-	Amónkar Pundalik Atmaram, Kumbhar Wada, Wadi, Mercas, Goa.	-do-

[No. 76/Goa-LA/2002]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

आ. अ. 43.—यतः भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संगठन के किसी भी सदन के या किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश के तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1999	02—वेन्गुर्ला	शंकर पांडुरंग उभाडांडा ता० वेन्गुर्ला जिला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
2.	-वही-	02—वेन्गुर्ला	सुभाष शिरोडकर पेन्दुर, ता० वेन्गुर्ला, जिला सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र	-वही-

[सं. 76/महाराष्ट्र-वि. स./99]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

O. N. 43.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidate specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Maharashtra Legislative Assembly specified in column 2 and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses, as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission, or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	S. No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Maharashtra Legislative Assembly, 1999	02—Vengurla	Shankar Pandurang Ubhadanda, Tal-Vengurla, Distt. Sindhudurg, Maharashtra	Failed to lodge any account of his/her election expenses
2.	-do-	-do-	Subhash Shiroadkar Pendur, Tal-Vengurla, Distt.-Sindhudurg, Maharashtra.	-do-

[No.76/MT-LA/99]

By Order,
SHANGARA RAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

आ. अ. 44.—यतः, फरवरी, 2002 में 27-बिल्सी (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अमित कुमार मथुरिया, मो.-किला खेडा, उझानी, जिला-बदायूं, उत्तर प्रदेश को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अधीन आदेश सं. 76/उ.प.-वि.स./2002, तारीख 7 जनवरी, 2003 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, बदायूं की इस रिपोर्ट के आधार पर कि उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया, लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण उक्त आदेश की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए निरहित कर दिया गया था;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की यह सूचित करने वाली पश्चात्पूर्ती अनुपूरक रिपोर्ट के आधार पर कि अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर और विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल कर दिया था, इस मामले पर विचार करने के पश्चात् और मामले के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि श्री अमित कुमार मथुरिया पर आरोपित निरहिता गलत रिपोर्ट के आधार पर थी और उसे आरोपित नहीं किया जाना चाहिए था;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अधीन आयोग के तारीख 7 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा श्री अमित कुमार मथुरिया पर आरोपित निरहिता को तारीख 19 मई, 2003 से शेष अवधि के लिए हटाता है।

[सं. उ.प्र.-वि.स./27/2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2003

O.N. 44.—Whereas, Shri Amit Kumar Mathuria, PO-Kila Keda Ujhani, District-Badayun, (UP), contesting candidate for the General Election to Uttar Pradesh Vidhan Sabha from 27-Bilsa (SC) Constituency, held in February, 2002, was disqualified by the Election Commission of India for failure to file the account of election expenses vide its order No. 76/UP-LA/2002, dated 7th January, 2003 under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for three years from the date of the order on the basis of report of District Election Officer, Badayun intimating non-submission of account of election expenses by the said candidate;

And whereas, after considering the case on the basis of a subsequent supplementary report of District Election Officer intimating that the candidate had filed the account of his election expenses within time and in the manner required by law and taking into account all material facts of the case, the Commission has concluded that the disqualification imposed on Shri Amit Kumar Mathuria was based on wrong report and that should not have been imposed.

Accordingly, Election Commission, in exercise of its powers conferred by Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, has, vide its order dated 19-05-2003 removed the disqualification of Shri Amit Kumar Mathuria imposed upon him by the Commission's Order dated 07-01-2003 under section 10A of the said Act, for the remaining period. w.e.f. 19-05-2003.

[No. UP-LA/27/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-cum-Principal Secy. (Admn.)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

आ. अ. 45.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	71—बावन (अ. जा.)	विश्राम चन्द्र, म. नं. 67, असालतपुर, थाना—कोतवाली, मुरादाबाद।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	75—मल्लावाँ	कौशल किशोर, मो.-महेश गली, हरदोई।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
3.	-वही-	114—अकबरपुर	अशोक, ग्राम-सिसानी, पोस्ट-जफरगंज, अम्बेडकर नगर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4.	-वही-	-वही-	घनश्याम, शहजाद पुर, अकबर पुर, अम्बेडकर नगर।	-वही-
5.	-वही-	-वही-	राम लखन, ग्राम-कनकपट्टी (दसमड़े), पोस्ट-बहोरिकपुर, अम्बेडकर नगर।	-वही-
6.	-वही-	115—जलालपुर	प्रहलाद, ग्राम व पोस्ट-सिकरोहर, तहसील-अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।	-वही-
7.	-वही-	-वही-	जगदीश, ग्राम-जैतपुर, पोस्ट-उदयपुर, अम्बेडकर नगर।	-वही-
8.	-वही-	-वही-	श्री राम, ग्राम व पोस्ट-अम्बरपुर, अम्बेडकर नगर।	-वही-
9.	-वही-	119—बीकापुर	राम प्रसाद, ग्राम व पोस्ट-करनाईपुर, मुतलिके भीटी, जिला-फैजाबाद।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	राम मणि, ग्राम-बीरापुर, पो.-केलालाल खाँ, जिला-फैजाबाद।	-वही-

1	2	3	4	5
11.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	123—दरियाबाद	मोहन लाल, ग्राम व पोस्ट—किन्तूर, बाराबंकी।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12.	-वही-	145—गोण्डा	गोमती प्रसाद, ग्राम—नैपाल पुरवा, म.—खिराभा, पोस्ट—भगहर बुलन्द, जिला—गोण्डा।	-वही-
13.	-वही-	-वही-	नन्द किशोर, मो.—शाहबगंज ददुवा बाजार, जिला—गोंडा।	-वही-
14.	-वही-	-वही-	भगवान प्रसाद, ग्राम—सालपुर सेमरा, पोस्ट—विशुनपुर बरिया, जिला—गोंडा।	-वही-
15.	-वही-	-वही-	हरी राम, ग्राम—इन्द्रापुर, पोस्ट—बड़गाँव, जिला—गोंडा।	-वही-
16.	-वही-	149—हरैया	श्यामलाल चौधरी, ग्राम—बेलाड़े शुक्ल, पोस्ट—हरैया, जिला—बस्ती।	-वही-
17.	-वही-	163—बाँसगाँव (अ. जा.)	अनिल, ग्राम—बरियार, पोस्ट—नेवास, जिला—गोरखपुर।	-वही-
18.	-वही-	-वही-	रणनजय, ग्राम—बारीगाँव, पोस्ट—बरीगाँव, जिला—गोरखपुर।	-वही-
19.	-वही-	-वही-	रूपावती, ग्राम—सिक्टौर, पोस्ट—मानीराम, जिला—गोरखपुर।	-वही-
20.	-वही-	-वही-	व्यास, जिला—कैथवलिया हरख सिंह, पोस्ट—रूपनारी, जिला—गोरखपुर।	-वही-
21.	-वही-	-वही-	सुदरशन, ग्राम—भदर खास, पोस्ट—बढ़या, जिला—गोरखपुर।	-वही-
22.	-वही-	164—धुरियापार	सतीश कुमार मौर्य, ग्राम—तारखोप, पोस्ट—बसही, जनपद—गोरखपुर।	-वही-
23.	-वही-	-वही-	इन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम व पोस्ट—मकरहा, बेलघाट, गोरखपुर।	-वही-

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	164—धुरियापार	जगदीश नारायण, ग्राम-बहादुरपुर बुजुर्ग, पोस्ट-बेलघाट, गोरखपुर।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25.	-वही-	-वही-	राजेश कुमार सिंह, ग्राम-खुटभार, पोस्ट-ददरी, जनपद-गोरखपुर।	-वही-
26.	-वही-	-वही-	रामबली, ग्राम-कास्तनेवरा, पोस्ट-पटखौली, गोरखपुर।	-वही-
27.	-वही-	-वही-	रामानन्द, ग्राम व पोस्ट-भभया, जनपद-गोरखपुर।	-वही-
28.	-वही-	165—चिल्लूपार	कमलेश कुमार दूबे, ग्राम व पोस्ट-विमूटी, जिला-गोरखपुर।	-वही-
29.	-वही-	-वही-	पल्लू प्रसाद, ग्राम व पोस्ट-करवल उर्फ मझगाँवा, जिला-गोरखपुर।	-वही-
30.	-वही-	-वही-	पूरणवासी, ग्राम-हटवा, पोस्ट-गगहा, जिला-गोरखपुर।	-वही-
31.	-वही-	-वही-	रामदुलारे, ग्राम-टेम्हा, पोस्ट-गगहा, जिला-गोरखपुर।	-वही-
32.	-वही-	-वही-	रामदौर, ग्राम-संसारपार, पोस्ट-बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर।	-वही-
33.	-वही-	-वही-	सुरेन्द्र, ग्राम-खोहिया पट्टी, पोस्ट-वरियाखास, जिला-गोरखपुर।	-वही-
34.	-वही-	166—कौड़ी राम	मोती, ग्राम-सेन्दुली बिन्दुली, पोस्ट-बड़गो, जिला-गोरखपुर।	-वही-
35.	-वही-	-वही-	राजेन्द्र, ग्राम-महादेवा झारखण्डी, टुकड़ा नं.-2, जिला-गोरखपुर।	-वही-
36.	-वही-	-वही-	शोभा, ग्राम-लहसड़ी, टोला-भागलपुर, जिला-गोरखपुर।	-वही-

1	2	3	4	5
37.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	166—कौड़ी राम	गीता, शिवपुरी महोदय झारखण्डी, टुकड़ा नं.-1, जिला-गोरखपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38.	-वही-	-वही-	गोरख, ग्राम-जंगल रानी, सोहासकुअरी, टोला-गढ़वा, जिला-गोरखपुर	-वही-
39.	-वही-	-वही-	भानू प्रताप, ग्राम-दाउदपुर, नहर रोड़, पोस्ट-शिवपुर कॉलोनी, जिला-गोरखपुर	-वही-
40.	-वही-	-वही-	मथुरा, ग्राम-रामगढ़ताल सरहीया टोला, जिला-गोरखपुर	-वही-
41.	-वही-	-वही-	राकेश पाल, ग्राम-जंगल केवटलिया, पोस्ट-झंगहा, जिला-गोरखपुर	-वही-
42.	-वही-	167—मुण्डेरा बाजार	दीनानाथ, ग्राम-जंगल गौरी नं.-1, जिला-गोरखपुर	-वही-
43.	-वही-	-वही-	महेन्द्र, ग्राम-विलारी, जिला-गोरखपुर	-वही-
44.	-वही-	168.—पिपराइच	डा. कनिक लाल, ग्राम-सरन्डा, पोस्ट-नैयापार, जिला-गोरखपुर	-वही-
45.	-वही-	-वही-	जितेन्द्र, ग्राम व पोस्ट-उन्नाला दोयम, जिला-गोरखपुर	-वही-
46.	-वही-	-वही-	दीपक कुमार, दिलेजाकपुर शहर, जिला-गोरखपुर	-वही-
47.	-वही-	-वही-	रमाकान्त, ग्राम व पोस्ट-जंगल औराही, जिला-गोरखपुर	-वही-
48.	-वही-	169—गोरखपुर	प्रभूचन्द, खूनीपुर, पोस्ट-गीताप्रेस, गोरखपुर	-वही-
49.	-वही-	-वही-	डा. रामायण शर्मा, श्री विश्वकर्मा मन्दिर परिसर, मानसरोवर, गोरखपुर	-वही-

1	2	3	4	5
50.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	169—गोरखपुर	रवीन्द्र कुमार, मो०-हुमायूँपुर उत्तरी, पोस्ट-गोरखनाथ, गोरखपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51.	-वही-	170—मानीराम	दशरथ दास, ग्राम-ठाकुरपुर नं०-2, पोस्ट-परमेश्वरपुर, गोरखपुर	-वही-
52.	-वही-	-वही-	ओमप्रकाश, मो.-बरगदवा, पोस्ट-जंगल बेनी, माधो, नं०-2, (मोहरीपुर), जिला-गोरखपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
53.	-वही-	-वही-	त्रियुगी नारायण सिंह, ग्राम-परमेश्वरपुर, पोस्ट-रामपुर, गोपालपुर, जिला-गोरखपुर	-वही-
54.	-वही-	-वही-	नबीरजा अंसारी, मो०-घोसीपुर, पोस्ट-सदर, जिला-गोरखपुर	-वही-
55.	-वही-	-वही-	अच्छे लाल यादव, ग्राम-हरसेवक पुर नं०-2, पोस्ट-जंगल लक्ष्मीपुर, जिला-गोरखपुर	-वही-
56.	-वही-	-वही-	ओम प्रकाश कन्नौजिया, मो०-पुराना गोरखपुर शहर, पोस्ट-गोरखनाथ, गोरखपुर	-वही-
57.	-वही-	-वही-	इशितयाक अहमद, मो०-हुमायूँपुर दक्षिणी, पो०-सदर, गोरखपुर	-वही-
58.	-वही-	171—सहजनवा	किशोरी शुक्ला, सिविल लाइन प्रथम शहर, जिला-गोरखपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
59.	-वही-	-वही-	बद्री नाथ तिवारी, ग्राम-रोहा, पोस्ट-डीहघाट, जिला-गोरखपुर	-वही-
60.	-वही-	-वही-	राजमंगल, ग्राम-बरईपार खेवरिया, पोस्ट-कोदरी, जिला-गोरखपुर	-वही-
61.	-वही-	-वही-	रामसुन्दर प्रसाद, ग्राम-बनगाँवा, पोस्ट-सहजनवा, गोरखपुर	-वही-
62.	-वही-	-वही-	रामनाथ यादव, ग्राम-सखतपार, पोस्ट-मदनपुरा, जिला-गोरखपुर	-वही-

1	2	3	4	5
63.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	171—सहजनवा	विजय शंकर, ग्राम-हिरूआ, पोस्ट-मझौना, जिला-गोरखपुर	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
64.	-वही-	174—लक्ष्मीपुर	पशुपति नाथ, ग्राम-असुरैना टोला कुकेसर, धाना-परसामलिक, जिला-महाराजगंज	-वही-
65.	-वही-	-वही-	अख्तर आजम, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-समरधीरा, धाना-पुरन्दरपुर, जिला-महाराजगंज	-वही-
66.	-वही-	-वही-	राम प्रसाद, ग्राम-परसोहिया, पोस्ट-नौतनवां, धाना-नौतनवां, महाराजगंज	-वही-
67.	-वही-	-वही-	राम बेलास, ग्राम-असुरैना टोला कुकेसर, धाना-परसामलिक, जिला-महाराजगंज	-वही-
68.	-वही-	-वही-	बैजनाथ, ग्राम-माधोपुर, पोस्ट-गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर	-वही-
69.	-वही-	-वही-	शिव कुमार, ग्राम-अहिरौली, पोस्ट-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर	-वही-
70.	-वही-	196—निजामाबाद	राज नेत यादव, ग्राम-खानपुर, पोस्ट-संजरपुर, जिला-आजमगढ़,	-वही-
71.	-वही-	226—वाराणसी दक्षिणी	भरत तिवारी, बी-20/69, भेलुपुरा शहर, वाराणसी	-वही-
72.	-वही-	-वही-	अरूण पाठक, बी-02/202, मो०-भदैनौ, पोस्ट-शिवाला, वाराणसी	-वही-
73.	-वही-	-वही-	विजय, बी-03/214, शिवाला, वाराणसी	-वही-
74.	-वही-	234—बारसठी	योगेन्द्र सिंह, ग्राम-पौहा, पोस्ट-बेलासिन, जौनपुर	-वही-
75.	-वही-	236—केराकत (अ. जा.)	जियालाल पासी, ग्राम-छितौना, पोस्ट-केराकत, जिला-जौनपुर	-वही-

1	2	3	4	5
76.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	239—रारी	राय साहब यादव, ग्राम-देवरामपुर, पोस्ट-घनश्यामपुर, जिला-जौनपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
77.	-वही-	241—खूटहन	कृपाशंकर दूबे, ग्राम व पोस्ट-मेढ़ा, तहसील-बदलापुर, जिला-जौनपुर	-वही-
78.	-वही-	245—राबर्ट्सगंज (अ. जा.)	राधे श्याम, 3-प्रथम-37, ओबरा कॉलोनी, तहसील-राबर्ट्सगंज जिला-सोनभद्र	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
79.	-वही-	247—चूनार	सत्य नरायन, ग्राम व पोस्ट-गांगपुर, जिला-मिर्जापुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
80.	-वही-	248—मझवा	रामनरेश, ग्राम-नागनार हरैया, पोस्ट-मधुपुर, जिला-मिर्जापुर	-वही-
81.	-वही-	249—मिर्जापुर	सूर्यभान प्रसाद, झावागण, घंटाघर, मिर्जापुर	-वही-
82.	-वही-	253—बारा	राम बाबू, ग्राम-भोपतपुर, पोस्ट-करेहदा, तहसील-चायल, जिला कौशाम्बी	-वही-
83.	-वही-	254—झुंसी	दयाशंकर पाण्डेय, ग्राम-सोई राई, पोस्ट-बरेस्ता कलां, इलाहाबाद	-वही-
84.	-वही-	-वही-	राकेश कुमार, ग्राम व पोस्ट-मलावां खुर्द, इलाहाबाद	-वही-
85.	-वही-	-वही-	अशोक कुमार यादव, ग्राम-छतनाग उपरहार, झुंसी, इलाहाबाद	-वही-
86.	-वही-	-वही-	दान बहादुर सिंह, ग्राम-एतमाद उर्फ मिश्रापुर, फूलपुर, इलाहाबाद	-वही-
87.	-वही-	256—प्रतापपुर	राज बहादुर, ग्राम-महुआ कोठी, पोस्ट-जलालपुर कस्बा, इलाहाबाद	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।

1	2	3	4	5
88.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	258—नवाबगंज	अतुल प्रकाश, ग्राम-धरनीधर का पुरा, पोस्ट-अतरामपुर नवाबगंज, इलाहाबाद	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
89.	-वही-	277—सरसौल	राम नरेश, ग्राम-अमौरा, पोस्ट-मलवां, जिला-फतेहपुर	-वही-
90.	-वही-	281—सरवनखेड़ा	जे. पी. कुशवाहा, मकान नं. डी-47, राजीव नगर, हरजेन्दर नगर, कानपुर नगर-7	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
91.	-वही-	283—बिल्हौर (अ. जा.)	अमर नाथ, आजाद नगर, बिल्हौर, कानपुर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
92.	-वही-	304—नरैनी	राजा राम, सिविल लाइन बांदा रोड़, अतर्रा, जिला-बांदा	-वही-
93.	-वही-	-वही-	राम किशोर, नई बाजार अतर्रा, जिला-बांदा	-वही-
94.	-वही-	308—चरखारी (अ. जा.)	श्री कमलेश कुमार, भटेवराखुर्द, कुलपहाड़, जनपद-महोबा	-वही-
95.	-वही-	-वही-	विश्रनाथ, ग्राम-सालट, चरखारी, महोबा	-वही-
96.	-वही-	-वही-	सतीश चन्द्र, ग्राम-बुधौलियाना, राठ, जिला-हमीरपुर	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अन्दर दाखिल करने में असफल रहे।
97.	-वही-	309—महोबा	श्रीमती लज्जा, ग्राम-शाहपहाड़ी, पोस्ट-महोबा, जिला-महोबा	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
98.	-वही-	-वही-	श्रीमती प्रेमा देवी, ग्राम-ननवारा, तहसील-कुलपहाड़, जिला-महोबा	-वही-
99.	-वही-	316—कोंच (अ. जा.)	श्रीमती सुशीला वर्मा, रामनगर, उरई, जिला-जालौन	-वही-
100.	-वही-	319—माधौगढ़	भगवानदास तिवारी, ग्राम-मलकपुरा, पोस्ट-छिरिया सलेमपुर, जिला-जालौन	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।

1	2	3	4	5
101.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	323-शिकोहाबाद	जहान सिंह, नगला गुलाल, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
102.	-वही-	-वही-	गोविन्द कृष्ण, दास कम्पाऊन्ड, शिकोहाबाद	-वही-
103.	-वही-	-वही-	चन्द्र कान्त, टीकामई, बनवारा, तहसील-जसराना, शिकोहाबाद	-वही-
104.	-वही-	-वही-	दया शंकर, जेवड़ा, सादूपुर, शिकोहाबाद	-वही-
105.	-वही-	-वही-	निहाल सिंह, आरोंज, शिकोहाबाद	-वही-
106.	-वही-	-वही-	पंकज कुमार, कटैना हर्षा, तहसील-जसराना, शिकोहाबाद	-वही-
107.	-वही-	-वही-	मंशा राम, जहाँगीरपुर गैलरई, शिकोहाबाद	-वही-
108.	-वही-	-वही-	रजनीश कुमार, जेवड़ा, सादूपुर, शिकोहाबाद	-वही-
109.	-वही-	-वही-	विजय कुमार, 394-वी, यादव कालोनी, शिकोहाबाद	-वही-
110.	-वही-	-वही-	सत्य प्रकाश, माधोगंज, शिकोहाबाद	-वही-
111.	-वही-	335—फिरोजाबाद	विजरानी, आजादनगर, फिरोजाबाद	-वही-
112.	-वही-	-वही-	प्रदीप, 170, कोटला मुहल्ला, फिरोजाबाद	-वही-
113.	-वही-	-वही-	श्रीनिवास, 140, पुराना रसूलपुर, फिरोजाबाद	-वही-
114.	-वही-	344—खेरागढ़	तरुण कुमार, 31/12, जौहरी बाजार, आगरा	-वही-
115.	-वही-	356—अतरौली	कलियान, ग्राम व पोस्ट-चड़ौली बुजुर्ग, अलीगढ़	-वही-

1	2	3	4	5
116.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	356—अतरौली	बृजेश कुमार, ग्राम-कदोली, पोस्ट-झिझरका, अलीगढ़	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
117.	-वही-	-वही-	वीरपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट-जवाँ, अलीगढ़	-वही-
118.	-वही-	357-अलीगढ़	मुकलत अली, 3/4, बाला-ए-किला तथा सैयदवाड़ा, अलीगढ़	-वही-
119.	-वही-	-वही-	नौरीन खान, रसालगंज, अलीगढ़	-वही-
120.	-वही-	-वही-	योगेश, सराय दूबे, अलीगढ़	-वही-
121.	-वही-	-वही-	विवेक, गांधीबारा, कनवरी गंज, अलीगढ़	-वही-
122.	-वही-	358-कोल (अ.जा.)	इन्द्रपाल, ग्राम-बरौला, पोस्ट-कुंवरपुर, तहसील-सिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर	-वही-
123.	-वही-	-वही-	देवदत्त, ग्राम व पोस्ट-चण्डौंस, तहसील-खेर, अलीगढ़	-वही-
124.	-वही-	-वही-	प्रेमवती, पला-साहिबाबाद, पोस्ट-खिरनीगेट, अलीगढ़	-वही-
125.	-वही-	-वही-	रमेश चन्द्र, 9/15, घुरियाबाग, अलीगढ़	-वही-
126.	-वही-	359-इगलास	अखत्यार सिंह, ग्राम व पोस्ट-मजूपुर, सुबकरा, इगलास	-वही-
127.	-वही-	-वही-	गिराज सिंह, जलू डा.-मुखर, इगलास	-वही-
128.	-वही-	-वही-	राम सिंह, ग्राम-मजूपुर सुबकरा, अलीगढ़	-वही-
129.	-वही-	360-बरौली	सुमित्रा सिंह, जनकपुरी मैरिस रोड, अलीगढ़	-वही-
130.	-वही-	-वही-	बलराज, ग्राम-श्यामपुर, पोस्ट-दाऊपुर, अलीगढ़	-वही-
131.	-वही-	-वही-	वी. एल. चौहान ग्राम व पोस्ट-मोहरैना, अलीगढ़	-वही-

1	2	3	4	5
132.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए सामान्य निर्वाचन, 2002	361-खैर	फकीर चन्द्र मौर्य, ग्राम व पोस्ट-अरना, तहसील-खैर, अलीगढ़	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
133.	-वही-	-वही-	बनी सिंह, ग्राम व पोस्ट-जलोखरी, तहसील-गभाना, अलीगढ़	-वही-
134.	-वही-	-वही-	राजपाल सिंह, ग्राम-डेठा खुर्द, पोस्ट-पिसावा, तहसील-गभाना, अलीगढ़	-वही-
135.	-वही-	401-हरौड़ा (अ.जा.)	श्री अश्विनी कुमार, ग्राम-मानकमऊ, सहारनपुर	-वही-
136.	-वही-	402-सहारनपुर	सरमिष्ठा, मकान नं.-181, पेपर मिल रोड, ब्रह्मपुरी कालोनी, सहारनपुर	-वही-
137.	-वही-	402-सहारनपुर	संजय कुमार, 2/1048, रामनगर, सहारनपुर	-वही-
138.	-वही-	403-मुजफ्फराबाद	जमशैद ली उर्फ जमशैद अली, ग्राम-मिर्जापुर पोल, डाक-खास, तहसील-बेहट, सहारनपुर	-वही-
139.	-वही-	-वही-	रविन्द्र कुमार, ग्राम-मझाड़ी, डाक-कम्बोह मजरा, जिला-सहारनपुर	-वही-
140.	-वही-	-वही-	रमेश, ग्राम-मिर्जापुर मजरा पीकी, डाक-सलेमपुर, भूकड़ी, सहारनपुर	-वही-
141.	-वही-	-वही-	विकश उर्फ विकेश, ग्राम-तिवडा जुनारदार, जिला-सहारनपुर	-वही-

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक-सह-प्रधान सचिव (प्रशासन)

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

O. N. 45.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Elections to the Legislative Assembly in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) and held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	S. No. & Name of Constituency	Name & Address of Contesting Candidates	Reasons for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002	71-Bawan (SC)	Vishram Chandra, House No.-67, Asalatpura P.S.-Kotwali, Muradabad	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
2.	-do-	75-Mallawan	Kaushal Kishore, Moh.-Mahesh Gali, Hardoi	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
3.	-do-	114-Akbarpur	Ashok, Vill.-Sisani, Post-Jafarganj, Ambedkar Nagar	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
4.	-do-	-do-	Ghanshyam, Shahjad Pur, Akbar Pur, Ambedkar Nagar	-do-
5.	-do-	-do-	Ram Lakhan, Vill.-Kanak Patti (Dasmare), P.O.-Bohorikpur, Ambedkar Nagar	-do-
6.	-do-	115-Jalalpur	Prahlad, Vill. & Post-Sikrohar, Teh.-Akbarpur, Ambedkar Nagar	-do-
7.	-do-	-do-	Jagdish, Vill.-Jaitpur, P.O.-Udyapur, Ambedkar Nagar	-do-
8.	-do-	-do-	Shri Ram, Vill. P.O.-Amberpur, Ambedkar Nagar	-do-
9.	-do-	119-Bikapur	Ram Prasad, Vill. & Post-Karnaipur, Mutleke Bheetee, Distt. Faizabad	-do-
10.	-do-	-do-	Ram Mani, Vill.-Beerapur, P.O.-Kelalal Khan, Distt.-Faizabad	-do-

1	2	3	4	5
11.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	123-Dariyabad	Mohan Lal, Vill. & Post-Kintur, Barabanki	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
12.	-do-	145-Gonda	Gomti Prasad, R/o Vill. -Nepal Purwa, H/o Khirabha, Post-Bhaghar Buland, Distt. -Gonda	-do-
13.	-do-	-do-	Nand Kishore, R/o Moh. -Sahabganj Daduwa Bazar, Distt. - Gonda	-do-
14.	-do-	-do-	Bhagwan Prasad, Vill. -Salpur Semra, Post-Bishunpur Bariya, Distt. -Gonda	-do-
15.	-do-	-do-	Hari Ram, Vill. -Indrapur, Post-Bargaon, Distt. -Gonda	-do-
16.	-do-	149-Harriya	Shyamlal Chaudhery, Vill. Belare Shukla, Post-Harriya, Distt. Basti	-do-
17.	-do-	163-Bansgaon (SC)	Anil, Vill. -Bariyar, Post-Newas, Distt. -Gorakhpur	-do-
18.	-do-	-do-	Rananjay, Vill. -Barigaon, Post-Barigaon, Distt. -Gorakhpur	-do-
19.	-do-	-do-	Rupawati, Vill. -Siktoor, PO-Maniram, Distt. -Gorakhpur	-do-
20.	-do-	-do-	Vyas, Vill. -Kaithawaliya Harakh Singh, Post-Rooprani, Distt. -Gorakhpur	-do-
21.	-do-	-do-	Sudarsan, Vill. -Bhadar Khas, PO-Barypar, Distt. Gorakhpur	-do-
22.	-do-	164-Dhuriapar	Satish Kumar Maurya, Vill. -Tarkhop, Post-Basahi, Distt. -Gorakhpur	-do-
23.	-do-	-do-	Inder Pratap Singh, Vill. & Post-Makaraha, Belghat, Gorakhpur	-do-
24.	-do-	-do-	Jagadish Narain, Vill. -Bahadurpur Bujurg, Post-Belghat, Gorakhpur	-do-
25.	-do-	-do-	Rajesh Kumar Singh, Vill. -Khutbhar, Post-Dadari, Distt. -Gorakhpur	-do-

1	2	3	4	5
26.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	164-Dhuriapar	Rambali, Vill.-Kast Nevera, Post-Patkhduli, Gorakhpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
27.	-do-	-do-	Ramanand, Vill. & Post-Bhabhya, Distt.-Gorakhpur	-do-
28.	-do-	165-Chilloopar	Kamalesh Kumar Dubey, Vill. & Post-Vimiti, Distt.-Gorakhpur	-do-
29.	-do-	-do-	Paltoo Prasad, Vill. & Post-Karwal Alias Maghgawan, Distt.-Gorakhpur	-do-
30.	-do-	-do-	Puranwasi, Vill.-Hatawa, Post-Gagha, Distt.-Gorakhpur	-do-
31.	-do-	-do-	Ram Dulare, Vill.-Temha, Post-Gagaha, Distt.-Gorakhpur	-do-
32.	-do-	-do-	Ramdaur, Vill.-Sansarpar, PO-Barahalganj, Distt.-Gorakhpur	-do-
33.	-do-	-do-	Surendra, Vill.-Khohia Patti, Post-Variakhas, Distt.-Gorakhpur	-do-
34.	-do-	166-Kauri Ram	Moti, Vill.-Senduli Benduli, PO-Bargoan, Distt.-Gorakhpur	-do-
35.	-do-	-do-	Rajendra, Vill.-Mahadeo Jharkhandi Tukra No. 2, Distt.-Gorakhpur	-do-
36.	-do-	-do-	Shobha, Vill.-Lahsari, Tola Bhagalpur, Distt.-Gorakhpur	-do-
37.	-do-	-do-	Gita, Sheopuri Mahadeo Jharkhandi Tukra No.-1, Distt.-Gorakhpur	-do-
38.	-do-	-do-	Gorakh, Vill.-Jangal Rani Sohaskunwari, Tola-Garhwa, Distt.-Gorakhpur	-do-
39.	-do-	-do-	Bhanu Pratap, Vill.-Daudpur, Nahar Road, PO-Shivpur Colony, Distt.-Gorakhpur	-do-

1	2	3	4	5
40.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	166-Kauri Ram	Mathura, Vill.-Ramgarh Tal Sarahia Tola, Distt.-Gorakhpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
41.	-do-	-do-	Rakesh Pal, Vill.-Jangal Kevtalia, PO-Jangha, Distt.-Gorakhpur	-do-
42.	-do-	167-Mundera Bazar	Dina Nath, Vill.-Jangalgaury No. 1, Distt.-Gorakhpur	-do-
43.	-do-	-do-	Mahendra, Vill.-Bilari, Distt.-Gorakhpur	-do-
44.	-do-	168-Pipraich	Dr. Kanik Lal, Vill.-Saranda, Post-Naiyapar, Distt.-Gorakhpur	-do-
45.	-do-	-do-	Jitendra, Vill. & Post-Unnaula Doyam, Distt.-Gorakhpur	-do-
46.	-do-	-do-	Deepak Kumar, Dilejakpur, Distt.-Gorakhpur	-do-
47.	-do-	-do-	Ramakant, Vill. & Post-Jungal Aurahi, Distt.-Gorakhpur	-do-
48.	-do-	169-Gorakhpur	Prabhuchand, Khoonipur, PO-Gita Press, Gorakhpur	-do-
49.	-do-	-do-	Dr. Ramayan Sharma, Shri Viswakarma Temple, Compound, Mansarowar, Gorakhpur	-do-
50.	-do-	-do-	Ravindra Kumar, Moh.-Humanyunpur North, Post-Gorakhnath, Gorakhpur	-do-
51.	-do-	170-Maniram	Dashrath Das, Vill.-Thakurpur No. 2, Post-Parmeshwarpur, Gorakhpur	-do-
52.	-do-	-do-	Omprakash, Moh.-Bargadwa, Post-Jungle Beni Madho No.-2 (Mohripur), Distt.-Gorakhpur	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
53.	-do-	-do-	Triyugi Narayan Singh, Vill. Parmeshwarpur, Post-Rampur, Gopalpur, Distt.-Gorakhpur	-do-

1	2	3	4	5
54.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	170-Maniram	Nabi Raza Ansari, Moh.-Ghoshi Pur, Post-Sadar, Distt.-Gorakhpur	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
55.	-do-	-do-	Achhey Lal Yadav, Vill.-Harsevek Pur No. 2, Post-Jungal Laxmi Pur, Distt.-Gorakhpur	-do-
56.	-do-	-do-	Omprakash Karmajia, Moh.-Old Gorakhpur City, Post- Gorakhnath, Gorakhpur	-do-
57.	-do-	-do-	Isthaqu Ahamad, Moh.-Humanyun Pur South, Post-Sadar, Distt.-Gorakhpur	-do-
58.	-do-	171-Sahajanwa	Kishori Shukla, Civil Line First City, Distt.-Gorakhpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
59.	-do-	-do-	Badri Nath Tiwari, Vill.-Roha, Post-Dihaghat, Distt.-Gorakhpur	-do-
60.	-do-	-do-	Rajmangal, Vill.-Braipur Vevaria, Post-Kodari, Distt.-Gorakhpur	-do-
61.	-do-	-do-	Ram Sunder Prasad, Vill.-Bengawan, Post.-Sahajanwa, Distt.-Gorakhpur	-do-
62.	-do-	-do-	Ram Nath Yadav, Vill.-Rawatpar, Post-Madanpura Distt.-Gorakhpur	-do-
63.	-do-	-do-	Vijay Shankar, Vill.-Hiruwa, Post-Mazauna, Distt.-Gorakhpur	-do-
64.	-do-	174-Luxmipur	Pashupati Nath, Vill.- Ashuraina Tola Kukeshar, P. S. -Parsamali Distt.-Maharajganj	-do-
65.	-do-	-do-	Akhtar Ajam, Vill.-Raghunathpur, PO-Samardhira, Distt.- Maharajganj	-do-
66.	-do-	-do-	Ram Prasad, Vill.-Parsolia, PO-Nautanwa, Maharajganj	-do-
67.	-do-	-do-	Ram Vilas, Vill.-Ashuraina Tola Kueshar, Distt.-Maharajganj	-do-

1	2	3	4	5
68.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	174-Luxmipur	Vajnath, Vill.-Madhopur, PO-Gorakhnath, Distt.-Gorakhpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
69.	-do-	-do-	Shiv Kumar, Vill.-Ahirauli, PO-Sikariganj, Distt.-Gorakhpur	-do-
70.	-do-	196-Nizamabad	Raj Net Yadav, Vill.-Khanpur, Post-Sanjarpur, Distt.-Azamgarh	-do-
71.	-do-	226-Varanasi South	Bharat Tiwari, B 20/69, Bhelupura, Shahar, Varanasi	-do-
72.	-do-	-do-	Arun Pathak, B-02/202, Moh.-Bhadainy, PO-Shivala, Varanasi	-do-
73.	-do-	-do-	Vijay, B-03/214, Shivala, Varanasi	-do-
74.	-do-	234-Barsathi	Yogendra Singh, Vill.-Poha, PO-Helasin, Jaunpur	-do-
75.	-do-	236-Kerakat (SC)	Jiyalal Pasi, Vill. Chhitauna, Post-Kerakat, Distt.-Jaunpur	-do-
76.	-do-	239-Rari	Ray Sahab Yadav, Vill.-Devrampur, PO-Ghanshyampur, Distt.-Jaunpur	-do-
77.	-do-	241-Khuthan	Kripa Shankar Dubey, Vill. and PO-Merha, Tah.-Badlapur, Distt.-Jaunpur	-do-
78.	-do-	254-Robertsganj (SC)	Radhey Shyam, 3, I-37, Obra Coloney, Distt.-Sonebhadra	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
79.	-do-	247-Chunar	Satya Narain, Vill. and PO-Gangpur, Distt.-Mirzapur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
80.	-do-	248-Majhawa	Ramnaresh, Vill.-Nagnar Haraiya, PO-Madhupur, Distt.-Mirzapur	-do-
81.	-do-	249-Mirzapur	Suryabhan Prasad, Jhawagarh, Ghantaghar, Mirzapur	-do-
82.	-do-	253-Bara	Ram Babu, Vill.-Bhopatpur, Post-Karehada, Tahsil-Chail, Distt.-Kausambi	-do-

1	2	3	4	5
83.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	254-Jhansi	Dayashankar Pandey, Vill.-Soe Rae, Post-Baresta Kala, Allahabad	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
84.	-do-	-do-	Rakesh Kumar, Vill. and Post- Malava Khurd, Allahabad	-do-
85.	-do-	-do-	Ashok Kumar Yadav, Vill.-Chhatnag Uparhar, Jhansi, Allahabad	-do-
86.	-do-	-do-	Dan Bahadur Singh, Vill.-Etomad Alias Mishrapur, Phulpur, Allahabad	-do-
87.	-do-	256-Pratappur	Raj Bahadur, Vill.-Mahua Kothi, Post-Jalalpur Kasba, Allahabad	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
88.	-do-	258-Nawabganj	Atul Prakash, Vill.-Dharmidhar Ka Pura, Post-Atrampur, Allahabad	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
89.	-do-	277-Sarsaul	Ram Naresh, Vill.-Amanra, PO-Malwan, Distt.- Fatehpur	-do-
90.	-do-	281-Sarwankhera	J. P. Kushwaha, House No.-D-47, Rajiv Nagar, Harjendar Nagar, Kanpur Nagar-7	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
91.	-do-	283-Bilhaur (SC)	Amar Nath, Azad Nagar, Bilhaur, Kanpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
92.	-do-	304-Naraini	Raja Ram, Civil Line Banda road, Artarra, Distt.-Banda	-do-
93.	-do-	-do-	Ram Kishor Nai Bazar Atarra, Distt.-Banda	-do-
94.	-do-	308-Charkhari (SC)	Shri Kamlesh Kumar, Bhatewarakhurd, Kulpahar, Distt. -Mahauba	-do-
95.	-do-	-do-	Vishranath, Vill. Salat, Charkhari, Mahauba	-do-
96.	-do-	-do-	Satish Chandar, Vill. Budhailuiyana, Rath, Distt. Hameerpur	Failed to lodge the account of Election Expenses within time and in the manner required by law.

1	2	3	4	5
97.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	309-Mahauba	Smt. Lazza, Vill. -Shahpahari, Post-Mahauba, Distt. -Mahauba	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
98.	-do-	-do-	Smt. Premadevi, Vill. -Nagwara, Tahsil-Kulpahar, Distt. -Mahauba	-do-
99.	-do-	316-Konch (SC)	Smt. Sushila Verma, Ramnagar, Urai, Distt. -Jalon	-do-
100.	-do-	319-Madhogarh	Bhagwandas Tiwari, Vill. -Malakpura, Post-Chirtiya Salempur, Distt. -Jalon	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
101.	-do-	323-Shikauhabad	Jahan Singh, Nagla Gulal, Shikauhabad, Firozabad	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
102.	-do-	-do-	Govind Krishan, Das Compound, Shikauhabad	-do-
103.	-do-	-do-	Chandar Kant, Tikamai, Varnwara, Tahsil-Jasrana, Shikauhabad	-do-
104.	-do-	-do-	Daya Shankar, Jevra, Sadupur, Shikauhabad	-do-
105.	-do-	-do-	Nihal Singh, Aaraunj, Shikauhabad	-do-
106.	-do-	-do-	Pankaj Kumar, Katena Harsa, Tahsil-Jasrana, Shikauhabad	-do-
107.	-do-	-do-	Mansa Ram, Jahangirpur Gelarei, Shikauhabad	-do-
108.	-do-	-do-	Rajneesh Kumar, Jevra, Sadupur, Shikauhabad	-do-
109.	-do-	-do-	Vijay Kumar, 394-B Yadav Colony, Shikauhabad	-do-
110.	-do-	-do-	Satya Prakash, Madhoganj, Shikauhabad	-do-
111.	-do-	335-Firozabad	Vijrani, Azadnagar, Farozeabad	-do-
112.	-do-	-do-	Pradeep, 170, Kotla Mohla, Firozabad	-do-

1	2	3	4	5
113.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	335—Firozabad	Sriniwas, 140, Old Rasoolpur, Firozabad	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
114.	-do-	344—Kheragarh	Tarun Kumar, 31/12, Johari Bazar, Agra	-do-
115.	-do-	356—Atrauli	Kaliyan, Vill. & Post-Charauli Bujurg, Aligarh	-do-
116.	-do-	-do-	Brijesh Kumar, Vill-Kadauli, Post-Jhijraka, Aligarh	-do-
117.	-do-	-do-	Veerpai Singh, Vill. & Post-Jawan, Aligarh	-do-
118.	-do-	357—Aligarh	Mukeet Ali, 3/4, Bala-A-Kila and Sayedwara, Aligarh	-do-
119.	-do-	-do-	Naureen Khan, Rasalganj, Aligarh	-do-
120.	-do-	-do-	Yogesh, Sarai Dubc, Aligarh	-do-
121.	-do-	-do-	Vivek, Gandhibara, Kanwari Ganj, Aligarh	-do-
122.	-do-	358—Kol (SC)	Inderpal, Vill-Baraula, Post-Kunwarpur, Tahsil-Sikarpur, Distt.-Bulandshahar	-do-
123.	-do-	-do-	Devdutt, Vill. & Post-Chandauns, Tahsil-Kher, Aligarh	-do-
124.	-do-	-do-	Premiwati, Pala Sahibabad, Post-Khimigate, Aligarh	-do-
125.	-do-	-do-	Ramesh Chandar, 9/15, Ghuriabag, Aligarh	-do-
126.	-do-	359—Iglas	Akhtyaar Singh, Vill. & Post-Majupur, Subkara, Iglas	-do-

1	2	3	4	5
127.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	359—Iglas	Girraj Singh, Jalu Post-Mukhar, Iglas	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
128.	-do-	-do-	Ram Singh, Vill.-Majupur Subkara, Aligarh	-do-
129.	-do-	360—Baranli	Sumitra Singh, Janakpuri Meris Road, Aligarh	-do-
130.	-do-	-do-	Balraj, Vill.-Shyampur, PO-Daupur, Aligarh	-do-
131.	-do-	-do-	V.L. Chauhan, Vill. & PO-Mohrena, Aligarh	-do-
132.	-do-	361—Kher	Fakir Chandar Morya, Vill & PO-Arana, Tahsil-Kher, Aligarh	-do-
133.	-do-	-do-	Bani Singh, Vill & PO-Jalokhari, Tahsil-Gabhana, Aligarh	-do-
134.	-do-	-do-	Rajpal Singh, Vill.-Deta Khurd, PO-Pisawa, Tahsil-Gabhana, Aligarh	-do-
135.	-do-	401—Harora (SC)	Shri Aswani kumar, Vill.-Manakmao, Saharanpur	-do-
136.	-do-	402—Saharanpur	Sarmistha, House No.-181, Papar Mill Road, Brahampuri Colony, Saharanpur	-do-
137.	-do-	-do-	Sanjay Kumar, 2/1048, Ramnagar, Saharanpur	-do-
138.	-do-	403—Muzaffarabad	Jamshed Lee Alias Jamshed Ali, Vill.-Mirzapur Pol, PO-Khas, Tehsil-Behat, Saharanpur	-do-
139.	-do-	-do-	Ravinder Kumar, Vill.-Majhari, Post-Kamboh Mazra, Distt.-Saharanpur	-do-

1	2	3	4	5
140.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, 2002.	403-Muzaffarabad	Ramesh, Vill.-Mirzapur Mazra Peeki, PO-Salempur Bhookari, Saharanpur	Failed to lodge any account of his/her election expenses.
141.	-do-	-do-	Vikash Alias Vikesh, Vill.-Tiwra Junardar, Distt.-Saharanpur	-do-

[No. 76/UP-LA/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-cum-Principal Secy. (Admn.)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

आ. अ. 46.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य से लोक सभा के उप निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तत्कालीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2002	50—मिर्जापुर	श्रीमती मुन्नी देवी, मकान नं. पी-112, सी. आर. पार्क, नई दिल्ली-110 019	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	स्वामी महन्त रामजी महाराज, निवासी-राम जानकी मन्दिर, अम्बेडकरपुरम हुसेडिया, विनितखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	-वही-

[सं. 76/उ. प्र.-लो. स./2002(उप)]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

O. N. 46.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the bye-election to the House of the People in the State of Uttar Pradesh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidates	Reason for Disqualification
1.	Bye Election to the House of the People, 2002 from the State of Uttar Pradesh, 2002	50—Mirzapur	Smt. Munni Devi, House No. P-112, C.R. Park, New Delhi-110 019.	Failed to lodge any account of her election expenses
2.	-do-	-do-	Swami Mahant Ramji Maharaj, Residence:—Ram Janki Temple, Ambedkarpuram Husedia, Vinikhand-I, Gomtinagar, Lucknow, Uttar Pradesh.	Failed to lodge any account of his election expenses.

[No. 76/UP-HP/2002 (Bye)]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

आ. अ. 47.—जबकि निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तरांचल राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और जबकि, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :—

सारणी				
क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरहता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2002	46—भिकियासैण	श्रीमती शशि, ग्राम-हंसाभानरिया, पो.-कैलानी, तहसील-भिकियासैण, जिला-अल्मोड़ा, उत्तरांचल।	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	53—धारी	श्रीमती देवकी शर्मा, ग्राम व पो.-अधौड़ा, तहसील-धारी, जिला-नैनीताल, उत्तरांचल।	-वही-
3.	-वही-	63—खटिमा (अ.ज.जा.)	दिनेश व्यास, नि.-ग्राम-सोसा, तहसील-धारचूला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तरांचल।	-वही-

[स. 76/उत्तरा.-वि. स./2002]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2003

O. N. 47.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates, specified in column (4) of the table below at the General Elections to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said table;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notices and/or the Election Commission, after considering the representations made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. No. and Name of Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal, 2002.	46—Bhikyasen	Smt. Shashi, Vill.-Hansabhanaria, Post-Kelani, Tehsil-Bhikyasen, Distt.-Almora, Uttaranchal.	Failed to lodge the account of election expenses in the manner required by law.
2.	-do-	53—Dhari	Smt. Devki Sharma, Vill. & Post-Adhoda, Tehsil-Dhari, Distt.-Nainital, Uttaranchal.	-do-
3.	-do-	63—Khatima (S.T.)	Dinesh Vyas, Res.-Village-Sosa, Tehsil-Dharchoola, Distt.-Pithoragarh, Uttaranchal.	-do-

[No. 76/UCL-LA/2002]

By Order,

ANAND KUMAR, Director-cum-Principal Secy. (Admin.)